



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 30]
No. 30]नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2007/माघ 11, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2007/MAGHA 11, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 जनवरी, 2007

सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, हल्दिया स्थित कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची हेतु कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा, प्रस्ताव की प्रस्तुति करने की तिथि आगे बढ़ाता है और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के लिए प्रचलित किराया अनुसूची की वैधता का विस्तार करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)

आवेदक

आदेश

(जनवरी, 2007 के 25वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 23 अगस्त, 2006 की, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, छः माह की अवधि के लिए अथवा कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करते हुए, एक आदेश पारित किया था और केओपीटी को यह निर्देशित किया कि वह इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से 90 दिन के भीतर अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करें।

2. केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2007 द्वारा इस प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार कर दें और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता का विस्तार कर दें।

3. केओपीटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों के मूल्यांकन के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करने और संशोधित किराया अनुसूची तैयार करने के लिए पत्तन को थोड़ा अधिक समय चाहिए। यह प्राधिकरण, कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए, संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की

समयसीमा विस्तार करने हेतु तथा हल्दिया पर केओपीटी की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को विस्तार करने के अनुरोध से सहमत होने के लिए प्रवृत्त हैं।

4. हल्दिया स्थित कोलकाता की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, 4 दिसम्बर, 2006 से विस्तारित किया हुआ समझा जाएगा और दिनांक 31 अगस्त, 2007 तक अथवा हल्दिया स्थित अपनी भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए केओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा। केओपीटी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह कोलकाता स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के लिए एक प्रस्ताव और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए एक संशोधित प्रस्ताव, 31 मई, 2007 तक दाखिल करें।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/2006/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2007

No. TAMP/56/2005-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the date for submission of the proposal by the Kolkata Port Trust (KOPT) for Schedule of Rent for Land and Buildings of KOPT at Haldia and at Kolkata and extends the validity of the existing Schedule of Rates for Land and Buildings of KOPT at Haldia as in the Order appended hereto.

Schedule

Case No. TAMP/56/2005-KOPT

Kolkata Port Trust (KOPT)

Applicant

ORDER

(Passed on this 25th day of January, 2007)

This Authority had passed an Order dated 23 August, 2006, extending the validity of the existing Rent Schedule of Land and Buildings of KOPT at Haldia for a period of six months or till the effective date of Notification of Order to be passed by this Authority on the proposal to be filed by the Kolkata Port Trust (KOPT) for revision of Schedule of Rent for Land and Buildings of KOPT at Haldia and at Kolkata, whichever is earlier and directed the KOPT to file its revised proposal within 90 days from the date of Notification of this Order.

2. The KOPT vide its letter dated 10 January 2007 has requested this Authority to extend the date of submission of proposal for revision of the Schedule of Rent for Land and Buildings at Haldia and at Kolkata and extend the validity of the existing Rent Schedule of Land and Buildings of KOPT at Haldia.

3. As reported by the KOPT, it has initiated action for valuation of Land and Buildings at Haldia and at Kolkata. The port needs some more time to complete the process of valuation and preparation of revised Rent Schedule. This Authority is inclined to accede to the request made by KOPT to extend the time limit for submission of its revised proposal for revision of Rent Schedule for Land and Buildings at Haldia and at Kolkata and extend the validity of the existing Rent Schedule for Land and Buildings of KOPT at Haldia.

4. The validity of the existing Rent Schedule for Land and Buildings of KOPT at Haldia is deemed to have been extended from 4 December 2006 and shall remain valid till 31 August, 2007 or till the effective date of notification of Order to be passed by this Authority on the proposal to be filed by KOPT for revision of the Rent Schedule for its Land and Buildings at Haldia, whichever is earlier. The KOPT is directed to file its revised proposal for revision of the Schedule of Rent for Land and Buildings of KOPT at Haldia and a proposal for Schedule of Rent for Land and Buildings of KOPT at Kolkata by 31 May 2007 latest.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT-III/IV/143/2006/Exty.]